

July 20, 2022

The Manager, Department of Corporate Services BSE Limited Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 BSE Scrip code – [532541] Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012 The General Manager, Department of Corporate Services The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai – 400 051 NSE Scrip code – [COFORGE]

Dear Sir/Madam,

# Subject: Newspaper publication - Annual General Meeting Intimation

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited (Erstwhile NIIT Technologies Limited)



I J





Coforge Limited (Erstwhile known as NIIT Technologies Limited) Special Economic Zone, Plot No. TZ-2 & 2A, Sector - Tech Zone, Greater Noida (UP) - 201308, India. Tel.: +91 120 4592 300, Fax: +91 120 4592 301 www.coforge.com Registered Office : 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110 019, India. Tel.: +91 11 41029 297, Fax: +91 11 2641 4900 CIN: L72100DL1992PLC048753

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजी. कार्यालय : 09 कम्यूनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विद्यार, नई दिल्ली–110057 HeroHousing Finance वसंत विद्वार, नई दिल्ली–110057 अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना– नीलामी (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत	फॉर्म संo. एनसीएलटी. उए याचिका विद्वापन विवरण राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण निवमों, 2016 के नियम 35 के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष, नई दिल्ली पीठ सीपी(सीएए) – 71/एनढी/2022 के साथ संबंधित सीए(सीएए) – 50/एनढी/2022 कंपनीज अधिनियम, 2013 के मामले में	परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) ग्राधिकृत	
वत्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के हित हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूतित ऋणदाता) के साथ गिरवी अचल संपत्ति की बिक्री के रेष खूलना तदद्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से ऋणी(यों) और गारंटर(ओं) या उनके कानूनी वारिसों / तिनिधियों को स्थित किया जाता है कि प्रतिभूतित ऋणदाता को गिरवी / प्रमारित नीचे वर्णित अचल पंपत्तियों जिस पर हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूतित संपत्ति) के प्राधिकृत अधिकारी हारा कब्जा ले लिया था को नीचे वर्णित ऋणियों, सह-ऋणियों या गारंटरों से देव बकाया देयों की वसली के रेष' 'जहा है जो है', ''जो है जैसी है', अप ''जहां कहीं कमी'' के आधार पर 23 अगरत, 2022 (नीलामी तिथि) को बेची जाएगी । आरक्षित मुल्य वधरोहर राशि नीचे वर्णित है । सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के रोष प्रस्पडी के डिमांड ड्राफ्ट सहित मुहरबंद लिफाफे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत तथिकारी को 22 अगस्त, 2022 को शाम 5 बजे तक शाखा कार्यालय बिल्डिंग नं. 27, कम्यूनिटी सेंटर, संत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 में जमा किए जाने चाहिए ।	और कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में निम्न के बीच समामेलन की योजना के मामलें में ट्राइमेक्स फूडस प्राइवेट लिमिटेड	होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल अ एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12 सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क करके कर्जवार थ्री. शांति स्वरूप जौहरी के सुपुत्र शशांक जौहरी और श्री शशांक जौहरी की पत जौहरी को 08.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD0024704 रू.12,14,442.00 (रूपये बारह लाख चौदह हजार चार सौ बयालीस मात्र) और 07.12 अनुसार उस पर व्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने व करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जवार और सर्व सामान्य जनता दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के [	2) के साथ 7) के साथ 8) के सुप्रयोग 8) उपयोग 9) के साथ 9) के सुप्रयोग 9) के स्वरस्यों की 300वीं वार्षिक सामान्य बैठ 9) ('जणेपम') कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020 तंभ 9) विपेरिट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020 तंभ 9) 20/2020 कमानुसार दिनांकित 18 जमेल, 2021 ('एमसी'ए सर्कुलर'), भारती 9) 20/2020 कमानुसार दिनांकित 18 जनवरी, 2021 ('एमसी'ए सर्कुलर'), भारती 9) प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1, 1) को सुद्वना 1) को सुवना 1) को अन्य लागू प्रावधानों और तदधीन विरिधित नियमों के अनुपालन में बुधवार, 2 3) अगस्त, 2022 को पूर्वा, 09,00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स सुविधा ('वीसी)/अथवा अन्य ऑडिंग 1) विजुअल मीन्स ('ओवीएएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 1) एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कम्पनी की वार्षि
महमान         महमान         महमान         शिथि, गिम्प्राप्तमक         शार्षित मुंतुन         शार्षित मुंतुन           (अ)/ कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि के नाम         अनुसार राशि         (मिर्मप्राप्तमक (मीतिक के तहत)         शार्षित मुंतुन्य         शार्षित राशि (मीतिक के तहत)         शार्षित मुंतुन्य         शार्षित राशि (मीतिक के तहत)         शार्षित मुंतुन्य         शार्षित राशि (मीतिक के तहत)         शार्षित मुंतुन्य         शार्षित राशि (मीतिक के तहत)         शां तहत         शां तहत           14HFDELHOU वर्मा की पत्नी         सुरंत कुमार वर्मा, बिमला सुरंत कुमार वर्मा, वर्मा की पत्नी         06/07/2021 18:07/2022 तक         भौतिक कब्जा         Rs. 21,00,000/- 2,10,000/- 2,10,000/- 2,10,000/- यां त्र स्वाय प्र स्व प्र स्वाधिल, सांठेल को माप, सांठेल की पत्नी         शां तहत         शां तहत         शां तहत         शां तहत         शां तहत           14:07/2022 तक         प्र तावी नं. 3, खरारत नं. 279, गां तन्ता दा राजी 10 फुट, दक्षिण : दूसरा की संपत्ति, पश्चिम : संपत्ति का शेष भाग         शां तहल को पत्ति कब्जा         शां दिल का शेष साग         शां दिल का शेष कब्जा         शां दिल का शेष कब्जा         शां दिल का शेप कब्जा         शां दिल का शेप कब्जा         शां ति ख दा उठ, पर निर्मित	उनके संबंधित शेयरघारकों और लेनदारों याविका की सूचना ट्राइमेक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (याविकाकत्तां / इस्तांतरी कंपनी) और पैरामाउंट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (याविकाकर्ताा / इस्तांतरणकर्ता कंपनी1), प्रीमियर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (गैरयाविकाकर्ता / इस्तांतरणकर्ता कंपनी2), मुकुंद इॉरिपटेंतिटी प्राइवेट लिमिटेड (गैरयाविकाकर्ता / इस्तांतरणकर्ता कंपनी 3), एसएनजेड कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड (याविकाकर्ता / इस्तांतरणकर्ता कंपनी-4), प्रोमेक्स बांड्स प्राइवेट लिमिटेड (याविकाकर्त्ता / इस्तांतरणकर्ता कंपनी6), और उनके संबंधित शेयरघारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना के लिए मंजूरी हेतु, कंपनीज अधिनियम 2013 की घारा 230-232 के साथ पठित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत याविकाकर्ता कंपनियों द्वारा 08.06.2022 को प्रस्तुत की गई थी और कथित याविका को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने 08.07.2022 के आरंश के तहत 25.08.2022 को सुनवाई हेतु निधारित की गई है। कोई व्यक्ति कथित याविका का समर्थन अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपनी इच्छा स्वंय के द्वारा अध्या अपने अधिवत्ता के द्वारा स्रत्ताहरी जपने नाम तथा पते के साथ यह सूचना, नीचे दिए गए पते पर याविकाकर्ता कंपनी के लिए अधिवत्ता प्रेषित करे, जो कि याविकाकर्ता कंपनियों	किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 12,14,442.00 (रूपये बारह लाख च चार सौ बयालीस मात्र) 07.12.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को म् के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण	प सावधान ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के पास पंजीबद्ध है। उपरोक्त दस्ताये तेबसइट कार तेबसइट कार तेबसाइट <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> तथा <u>www.nseindia.com</u> पर और एनएसडीएल वेबसाइट <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वेससिट <u>कार</u> के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने संबंधी अनुदेश तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रतिभागिता अथवा एजीएम में <u>इं</u> —वोटिंग के माध्यम से वेट डालने का ढंग एजीएम आयोजन न सूचना में दिया गया है। भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर के धारक जि शेयरधारकों, ने अपना <u>ई</u> —मेल पता कम्पनी अथवा संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नहीं करवा है, उनके लिए लॉगइन क्रेडेस्थियल्स के संबंध में अनुदेश भी सूचना में दिए गए i वीसी / ओवीएएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्प अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
र्भावेत खसरा नं. 303, ब्लॉक V सेक्टर-सी, गांव- विंदापुर, भगवती विहार, खत्तम नगर, नई देल्ली-110059 क्षेत्र माप 109 वर्ग यार्ड अर्थात् 91.14 वर्ग मीटर सीमाएं उत्तर : 10 फुट चौड़ी गली, पूर्व : तोंट नं. 34, दक्षिण : 25 फुट चौड़ा रोड पश्चिम: प्लॉट नं. 33 HHFNSPHOU 20000007844, HHFNSPHEL 2000007848 iufित का विवरण : संपत्ति बियरिंग तीसरी मंजिल के सभी भाग व पार्सल, छत के साथ एलएचएस, गंपत्ति जा विवरण : संपत्ति बियरिंग तीसरी मंजिल के सभी भाग व पार्सल, छत के साथ एलएचएस, गंपत्ति जा विवरण : संपत्ति बियरिंग तीसरी मंजिल के सभी भाग व पार्सल, छत के साथ एलएचएस, गंपत्ति जा विवरण : संपत्ति बियरिंग तीसरी मंजिल के सभी भाग व पार्सल, छत के साथ एलएचएस, गंपत्ति नं. 23 पर निर्मित, खसरा नं. 123, 131, 132, व 146 में से ब्लॉक ओ एक्स. वाणी विहार, गीता 'चलेव, गांव- बिंदापुर, उत्तम नगए, नई दिल्ली-110059 प्लीध क्षेत्र 28.43 वर्ग मीटर सीमाएं पूर्व : प्लॉट i. 24, पश्चिम: पॉट नं. 24, खत्तर : 10 फुट चौड़ी गली पश्चिम: प्लॉट का भाग HHFDELHOU 1900001334 गंगति का विवरण : एजैट सं. 40, क्य प्रींट का प्रत्य प्रितिक के विज्य व्लॉक, प्र राह, सार, 128,000/-	लिए अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निघरित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिन से ज्यादा विलम्ब से नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को याधिका पर आपत्ति है तो आपत्ति के कारणों के साथ शायधन रेसी सुचना के साथ संतन्न होनी चाहिए। याचिका को प्रति वाहने वाता कोई भी व्यक्ति याविकाकर्ता कंपनी के लिए अधिवक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है। हस्ता/- (ऋषम शर्म) डीएसडी एडबोकेद्स याचिकाकर्ता कंपनी के लिए अधिवक्ता दिनाक: 20.07.2022 30, निजामुद्रीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013 ECONSTRUCT पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाऊस, सीएसटी रोड, कलि	पूर्व : गली पश्चिम : रोड उत्तर : प्लॉट नं. इ-33ए पश्चिम : प्लॉट नं. ई-34ए दिनांक : 15.07.2022 प्राधिकृत : स्थान : दिल्ली इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स	। मनगम्हीपत्र / कीहीप्रमान्न ('हिपोजिंटरी पार्टिकोॉट') के जमार्क करने का अनुरोध है
मंग्रेसिक का विवरण : एलेंट नं. सी–1 दूसरी मंजिल छत अधिकारों के बिना, ब्लॉक– ए. राइट हैं ड साइड क्षिण पश्चिम भाग. खसरा नं. 572. प्लॉट नं. 103 व 104. विण्णु एन्वलेव, गांव– डासना, गाजियाबाद, तरदा प्रदेश–201015 (कवर क्षेत्र माप 86 वर्ग मीटर सहित) सीमाएं उत्तर : 20 फुट चौड़ा रोड पूर्व : 20 टुट चौड़ा रोड, दक्षिण : प्लॉट नं. 102. पश्चिम : प्लॉट नं. 105 HHFDELHOU 19000001133 पंतित का विवरण : पलैट नं. जीएफ–06. ग्राउंड गलोर. छत अधिकारों के साथ, फ्रंट राइट हैंड साइड, मआईजी पलैट प्लॉट नं. डी–1 / 4. खसरा नं. 348, रेल विहार कॉलोनी, गांव– सद्दुल्लाबाद, परगना तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तरप्र प्रदेश–201102 (कवर क्षेत्र माप 86 वर्ग मीटर सहित) सीमाएं त्तरर : 25 फुट चौड़ा रोड पूर्व : मस्जिद दक्षिण : प्लॉट रेल विहार कॉलोनी, यांक- सद्दुल्लाबाद, परगना तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तरप्र प्रदेश–201102 (कवर क्षेत्र माप 86 वर्ग मीटर सहित) सीमाए त्तर : 25 फुट चौड़ा रोड पूर्व : मस्जिद दक्षिण : प्लॉट रेल विहार सॉसायटी पश्चिम : दूसरों की संपत्ति 19000001716 ममुह चौचरी, 83,02498/ भावतिक कब्जा	पार्गा स्ट्राना जबकि एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद ''ईएआरसी'' के रूप में संवर्भित के तहत निगमित एक प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 3 के तहत उनके बीच निष्पादित अभिहस्तांकन समझौते के प्रकाश में इंडसइंड बैंक लिमिटेड से ऋण खाते प्राप्त तहत प्रत्याभूत ऋणदाता होने के नाते (ईरआरसी ट्रस्ट–एससी 4 14 के ट्रस्टी के रूप में साना में का 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्य १ उधारकर्ताओं /सह–उधारकर्ताओं /बंधकों को मांग सूचना जारी कर, सूचना की दिनांक से 60 उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचना नहि क. अरण	) का प्राधिकृत अधिकारी कंपनी अधिनियम 1956 जोकृत है, वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं ा, इंडसइंड बें क लिमिटेड और ईएआरसी द्वारा और किए और जबकि ''ईएआरसी'' अब अधिनियम के र्य करते हुए), और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियमों, शकि का प्रयोग करते हुए, कॉलम नंबर 3 में देनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ सूचना में ों दी जा सकी।	प्रसिद्ध की स्थान के सुर्पत साथकों investors@coforge.com अथवा <u>rta@alankit.com</u> पर लिख सकते हैं। (पूर्वत: एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमि <sub>त</sub> (पूर्वत: एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमि हस्ता, तथि : 19 जुलाई, 2022 बरस्या र खान : नोएडा यस बैंक लिमिटेड
अनिकेश रंजन नेस्टिवा इत्यकेयर प्राइवेट लिमिटेड 18/07/2022 तक मेरिटवा इत्यकेयर प्राइवेट लिमिटेड 56 बी. खमरा नं. 24 / 8, गांव– मटियाला, श्री चंद पार्क, उत्तस नगर, नई दिल्ली 110059 (क्षेत्र माप 00 वर्ग यांड अध्यांत 83.6 वर्ग मीटर) सीमाएं उत्तर : 25 फुट चोडा रोड, पूर्व : 20 फुट चोडा रोड, दक्षिण : तॉट का भाग पश्चिम: प्लॉट का भाग HFDELHOU अनकेश रंजन अमित राजन अमित राजन अमित राजन 18/07/2022 तक मीतिक कब्जा विवरण : तीसरी मंजिल पर निर्मित, बैक साइड, छन् / टेरिस अधिकारों के बिना, संपत्ति नं. 55 56 बी. खनसा नं. 24 / 8, गांव– मटियाला, श्री चंद पार्क, उत्तसा नगर, नई दिल्ली 110059 (क्षेत्र माप 00 वर्ग यांड अध्यात् 83.6 वर्ग मीटर) सीमाएं उत्तर : 20 फुट चोडा रोड, दक्षिण :	खाला सं.       मैसर्स शिव पुष्प डेकोरेशन अपने आपने मालिक के माध्यम से श्री संतोष सिंह गहलोद /श्री संतोक गहलोद पुत्र श्री लक्ष्मण गहलोद /श्रीमती कृपा देवी पुत्र श्री       24         बंधककर्ता संपत्ति/याँ पता : आवासीय प्लाट सं. 29/16 (800 वर्ग फुट), खसरा सं. 687, ग्राम गेनवा, जो सीमांकन : उत्तर : दुर्गा राम, दूर्वि :: धानी राम, पूर्व : सड़क, पश्चिम : शिवजी       24         खाला सं.       गहलोद /श्री संतोक राहलोद पुत्र श्री लक्ष्मण गहलोद /श्रीमती कृपा देवी पुत्र श्री संतोक सिंह गहलोद       24         बंधककर्ता संपत्ति/याँ पता : आवासीय प्लाट सं. 29/16 (800 वर्ग फुट), खसरा सं. 687, ग्राम गेनवा, जो सीमांकन : उत्तर : दुर्गा राम, द्वीशाः धानी राम, पूर्व : सड़क, पश्चिम : शिवजी       2         खाला सं.       1. श्री अजय सिंह चौधरी उर्फ अजय चौधरी पुत्र श्री नन्नू सिंह / 2. श्रीमती       24	4 मार्च, 2021         21 जून, 2022         रू. 19,02,418/– दि. 31.05.2022 तक         YES         BANK           मार्च, 2021         21 जून, 2022         क </td <td>पंजीकृत और कॉपोंरेट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,सांताकूज ईस्ट, मुंबई–40005 CIN : L65190MH2003PLC143249,ई–मेल : communications@yesbank.in, वेबसाइट : www.yesban रूचना (धारा अंतर्गत नियम 8(1) अचल संपत्ति के लिए) 1 बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण अ 1 के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यहां निम्न वर्णित उधारकर्ता अ र्ताओं को मांग सूचना जारी कर मांग सूचना की दिनांक से उस पर भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभ गे दिनांक से 60 दिनों के भीतर उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। र्ताओं / बंधककर्ताओं उक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा उधारकर्ता और सह—उधारकर्ता ता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उ</td>	पंजीकृत और कॉपोंरेट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,सांताकूज ईस्ट, मुंबई–40005 CIN : L65190MH2003PLC143249,ई–मेल : communications@yesbank.in, वेबसाइट : www.yesban रूचना (धारा अंतर्गत नियम 8(1) अचल संपत्ति के लिए) 1 बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण अ 1 के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यहां निम्न वर्णित उधारकर्ता अ र्ताओं को मांग सूचना जारी कर मांग सूचना की दिनांक से उस पर भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभ गे दिनांक से 60 दिनों के भीतर उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। र्ताओं / बंधककर्ताओं उक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा उधारकर्ता और सह—उधारकर्ता ता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उ
00 वर्ग यार्ड अश्वात् 83.6 वर्ग मीटर) सीमाएं चत्तर : 25 फुट चौड़ा रोड़ पूर्व : 20 फुट चौड़ा रोड, दक्षिण :	3.       RRA01587N और PRA006549N/ RRA006549N/ RRA00650N       2. अी नरेश कुमार जैन पुत्र विस्त कुमार जैन / 3. अीमती रीनेंग गोयल पुत्री प्रमोद कुमार जैन / 4. अी राकेश गोयल पुत्र महेन्द्रा पाल गोयल बंधककत्ती संपत्ति/यों पता : कार्यालय सं. 206, 207, 208 और 209 दूसरे तल पर, ''वलास ऑफ पर वं ग गज), पताट सं. के–48 और 49, एल–3 से एल–5, कॉर्पोरेट टॉवर, शंकर लाल मार्ग, इंकम जयपुर–302015, राजस्थान श्री राकेश गोयल और श्री नरेश कुमार जैन के नाम । सीमांकन : उत्तर : 3 सडक, पूर्व : प्लाट सं. एल–2, एल–1 और के–47, परिवम : प्लाट सं. कै–एल–6, एल–7 और के–50         4       खाता सं.       भार्म पत्र श्री परे ख़र्म लाल भार्ग / श्री नरेश कुमार जैन श्री सुमंत शर्म / श्री सुमंत	4 मार्च, 2021       21 जून, 2022       किरंब खाता सं. RRA01587N और रू. 11,51,997/– किरब खाता सं. RRA00649N       नियमों के नियम 8 के तहत उस् संबंधित उधारकर्ता और सह– कि वह उक्त संपत्तियों से व्यवह दर पर ब्याज के लिए यस बैंक ति उधारकर्ताओं का ध्यान उपलर के प्रावधानों को आकर्षित किय कि प्रावधानों को आकर्षित किय कि प्रावधानों को आकर्षित किय कि प्रावधानों को आकर्षित किय कि वह उक्त संपत्तियों से व्यवह दर पर ब्याज के लिए यस बैंक ति उधारकर्ताओं का ध्यान उपलर के प्रावधानों को आकर्षित किय सं. गारंटर(रॉ)/बंधककर्ता(अ 1. (1) श्री बिहारी बुलानी स्थान-311001 उपहार विलेख के रूप में पंजीकृत,	ने प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न वर्णित संपत्तियों पर सांकेतिक कब्जा प्राप्त में ले लियां है। उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को आगाह किया जात हार ना करें और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि और उस पर संविदात लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। ब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत संपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( या जाता है। हर्ता(ओं)/ क्रे का नाम संख्या प्रत्याभूत संपत्ति का विवरण स्रूचना सांग सूचना की दिन फ्लैट सं. 201, एमपीएल सं. रुपये
पति का विवरण : पलैट नं, बी–8 पर निर्मित, तीसरी मंजिल पर, वेस्टर्न साइड पर निर्मित संपत्ति नं, धन्-3 / 94 का भाग, खसरा नं. 79 / 3 व 4 गांव पालम, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110045 (क्षेत्र माप 10 वर्ग फुट) सीमाएं उत्तर : 5 फुट बौड़ा गली, पूर्व : संपत्ति नं. एच–3 / 94 का भाग, दक्षिण : सड़क रेषम : दूसरों की संपत्ति यम व शतें याम व शतें ) निर्धारित निविदा / बोली फॉर्म और ब्रिकी के नियम व शतें किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 बजे से IT 5.00 बजे के बीच शाखा कार्यालय : 27, कम्युनिटी सेंटर, बंसत लोक, वसत विहार, नई दल्ली–110057 में उपलब्ध होंगे। (2) अचल संपत्ति आरक्षित मूच्य से नीचे पर नहीं बेची जाएगी। (3) बोली द्वे राशि रु. 10000 / – (रुपए दस इजार केवल) होगी। (4) उवत्त संपत्ति की खरीद के लिए जमा की गई स्वी बोलियों / निविदाओं के लिए ' डीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' दिल्ली के पक्ष में बिमांड झाफ्ट के रारा उक्त वर्णित अनुसार घरोहर राशि के साथ होनी चाहिए। डिमांड झाफ्ट नीलामी के बाव असफल लीवताओं को वापस कर सिए जाएंगे। (8) उच्चतन बोलीदाता हमेशा दिए जाने पर कि वह बोली के लिप पन्नी रूप से योग्य है और इसके अतिरिक्त दिया जाए कि बोली राशि आरक्षत मून्य से कम नहीं है, को फल बोलीदाता के रायम कर पर बह बोता दिया जाए। 1 उच्चतम प्रे का रोशि राज स्वित मि रे की स्व म के से नहा हो है, को प्रत्न सी योग्य रहो भी स्व प्रत्ना दिया न्या स्वार प्रत्न रिया हो से राशि करना की सह बे बी के लिय हरा करा के सी का साय के और इसके अतिरिक्त दिया जाए कि बोली राशि आरक्षित मून्य से कम नहीं है, को प्रत्नी लिये पर हो भा पर प्रदान प्रात्न प्रताति नि स्व स्व स्व स्वात हो के सि राशि करना प्रायिक्त सिकारी के निर्णय पर से में आदि कि या जाएगा। उच्चतम यो ती ही रोल रेखा करने की सिक्त हो को ती से साह स्वे की की निर्णय पर होना जाव प्रत्ना दित म्या स्व स्व स्व का से के सेकार दे की सत स्व ती से स्वार हो जाती	शर्मा के पक्ष में सीमांकन प्रकार : पूर्व हेमंत शर्मा की संपत्ति, पश्चिम : गणेश मंदिर संडक , उत्तर : श्री सुरेश चंद्र न 5. खाला सं. श्री हंस राज टिक्कीवाल पुत्र श्री हरी सुदन टिक्कीवाल / श्रीमती सुहाग रानी 22/ बंधककर्ता संपति/यों पता : आवासीय प्लाट सं. 1695 का पश्चिमी भाग मापक क्षेत्र – 167.93 वर्ग ग जयपुर–302001, राजस्थान श्री हंस राज टिक्कीवाल के नाम सीमांकन : उत्तर : गली और राधा रमन का म रास्ता और सरकारी बौक खाला सं. मैसर्स मां अंतेर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड/श्री मनीष कुमार तांबी पुत्र कुंज 6. RRA014034 ब्रिडाफी नांबी / श्री सती संगीता तांबी पत्र श्री अशोक कमार तांबी / श्री सनिल	<ul> <li>रहार की संपत्ति, दक्षिण : श्री अनंत एस लड्डा की संपत्ति</li> <li>4 मार्च, 21 जून, दि. 31.05.2022 तक राज, गांधी का बौक, बाबा चंद्रा मार्ग, चांदपोले बाजार, तकान, दक्षिण : रास्ता, पूर्व : चोक और रास्ता, पश्चिम : किन्दु खाता सं.</li> <li>4 मार्च, 21 जून, क. 10,17,847/- विन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये जून, ये जून, राष्ट्र : चोक और रास्ता, पश्चिम : किन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये जून, ये जून, ये जून, ते लिन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये जून, ये जून, ते लिन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये जून, ये जून, ते लिन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये जून, ये जून, ते लिन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये जून, ये जून, ते लिन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये जून, ये जून, ते लिन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये त्र प्रत् : प्रत्त, प्रदिग : किन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये ते ते सर्स आ राष्ट्र जे राष्ट्र : 20, 76, 074/- विन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये ते ते सर्स आ राष्ट्र : 20, 76, 074/- विन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये ते ते सर्स आ राष्ट्र : 20, 76, 074/- विन्दु खाता सं.</li> <li>9 ये ते ते सर्स आ राष्ट्र : 20, 76, 074/- विन्दु आता सं.</li> <li>9 ये ते ते सर्म आ राष्ट्र : 20, 76, 074/- विन्दु खाता सं.</li> </ul>	<ul> <li>ते त्रामा 148.47 वर्ग मीटर प्रेंड आशियाना पर, खंडारी, ब्लॉक-बी, माँजा मऊ हरीपर्वत वार्ड, आगरप-282002 (उ.प्र.) का संपूर्ण वसवांगीणभाग। सीमांकन : पूर्व : 202 और कॉरिडोर, पश्चिम : खुली जगह, उत्तर : खुली जगह और पल्टैट सं. 202, दक्षिण : खुलानी</li> <li>अपने मालिक</li> <li>संपति धारक मकान प्लॉट सं. बी–19</li> <li>रूपये</li> </ul>
(6) संभावित बोलीदाता पूर्व अप्यांइटनेंट के साथ 17 अगस्त, 2022 को सुबंह 10.00 बजे से दोप्रहर 2005 जे के बीच संपर्दि को जांच कर सकते हैं। (7) सफल बोलीदाता के रूप में घोषित व्यक्ति को घोषणा के द तुरंत. खरीदर राशि / उच्चतान बोली की राशि का 25 सिंगित जा में कराम होने पर, संपत्ति को नई दि तुरंत. खरीदर राशि / उच्चतान बोली की राशि का 25 सोंगित जा मंकराना होगा जिस्स 2 घंटे के भीतर धिक का की होने पर, संपत्ति को नई लागी के लिए फीर राशि का 25 सोंगित जा का कराम होने पर, संपत्ति को नई लागी के लिए फिर से खाज जाएगा। (नजी समझौते द्वारा बेचा जाएगा। (8) यदि आरंगिक जाम उन्तर नुसार किया गया है. खरीद राशि की घरि परे से वित के सहित संपत्ति के बिक्री सुनीरेवतीकरण की नरू नुसार किया गया है. खरीद राशि की घरि परे से वित के सहित संपत्ति के बिक्री सुनीरेवतीकरण की गयता नुसार किया गया है. खरीद राशि की घर राशि रेसे दिन के सहित संपत्ति के बिक्री सुनीरेवतीकरण का विर दे है, तो 15वें दिन तर्क या पहले प्राधिकृत अधिकारी को चुकता की जाएगी, यदि 15वें दिन रविवार आ अन्य देदी है, तो 15वें दिन रविवार प्रात्त के नई नीलामी में रखा जाएगा/ (नी) सर्वाती द्वारा बेन्दी वर्ष राश्तमे अन्य दे है, तो 15वें दिन रविवार पा जन्य दे सीर राजक होने पर, संपत्ति को नई नीलामी में रखा जाएगा/ निजी समझौते द्वारा बेचा जाएगा। (महा संसति को नई नीलामी में रखा जाएगा/ नीजी समझौते द्वारा बेचा जाएगा। एंतरी संवीरा स्वीतार पत्त से साद साहत हो वा रा साह को चई ने लोत के बीच रात्त में साह सीरा संसति को नई नीलामी में रखा जाएगा/ नीजी समझौते द्वारा बेचा जाएगा। (महाने संत पर वेययोग्य होता संत्री हिरा होत्री हो रा डायि गा पा फाइनेस लि. के द्वारा जल्त कर विया जाएगा और दोषी खरीवार पत्ति संत्री राती को जोई है जो संपत्ति के की क्रे इसकी प्रतात के नई ही ता से खाजि का वित्र हो का के सुर्व द व्य की क्रे सुर्व के निया जा स्वायित पर वेययोग्य हो तात सिं रा दोया को को दारा से वेचानिक संबीचित विभाग / कार्य वित्र पर वेययोग्य हो होता ति स्वी दे जो संरात करा का ता की से वेचाति के की क्र संवी की ने संवी दित्र र त्य वेवा के संत्र ति र त्वी व्य वेत्र की स्वी त्य वी ते तो से स्वी त्य वी ते की स्वर ते के स्वी स्वी वेया ते के संर वेचा के संवेचा ते के का संरात्त र ते को कार्य के ला का ति की क्रि हो के पर वेवा के स	सीमांकन : उत्तर : 18.0 मीटर ड्राइव वे, दक्षिण : 6.0 मीटर डाइव वे, पूर्व : 18.0 मीटर ड्राइव वे, पर्श्व : 18.0 मीटर ड्राइव वे, पर्श्व : 18.0 मीटर ड्राइव वे, पर्श्व : 18.0 मीटर ड्राइव वे, पश्चिम : का <b>7.</b> खाता सं. <b>8.</b> विक्राला सं. <b>9.</b> विरास अगिरेश आयरन एजेंसी अपने मालिक के माध्यम से श्री अरुण सिंह <b>1.</b> विक्र विक्र प्रिया कि कि साध्यम से श्री अरुण सिंह (1000) <b>1.</b> विक्र विक्र (1000) <b>1.</b> व (1000) <b>1.</b>	र पॉर्किंग के लिए खुली भूमि क्रुल = रु. 30,93,921/- दि. 31.05.2022 तक <b>4 मार्च,</b> <b>2022</b> रार डी, कलवर रोड, झोटवाड़ा, जयपुर–302012, ट सं. 387, पश्चिम : 30 फुट सडक <b>4 मार्च,</b> <b>21 जून,</b> <b>7. 4 5, 51,596</b> /- दि. 31.05,2022 तक <b>7. 8. 45, 51,596</b> /- दि. 31.05,2022 तक <b>7. 8. 45, 51,596</b> /- दि. 31.05,2022 तक <b>7. 8. 45, 51,596</b> /- दि. 31.05,2022 तक	(अग्रवाल         पर, क्षेत्र लगभग 401.32 वर्ग मीटर, कमला नगर पर, आगरा–282005         92,54,405.44/– (रुपये बानबे लाख का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। ककर्ता'')           MOR005         सीमांकन:: पूर्व: 60', फुट चौड़ी         चौवन हजार चार सौ पांच और चौवातीय 17.03.20
ति है। कंपनी संपत्ति पर किसी वेयों के मुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेती है। (13) 1 प्रतिशत के रेथिएस दे कोई है, उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा देययोग्य होगा। भुगतान कंपनी के में उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा किया जाना चाहिए और चालान की प्रति कंपनी को जाना की जानी हिए। (14) बिक्री कड़ाई से इस विज्ञापन और निघारित निविदा फॉर्म में दी गई नियमों व शत्तें का विषय । (15) सर्फल बोलीदाता, यर्थावेरा को कानून अनुसार लागू अनुसार पंजीकत बिक्री प्रमाणपत्र प्राप्त रने के लिए सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क व आकस्मिक व्ययों का वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत हिए (14) बिक्री कड़ा स्वीवरात के को बिना इस बिक्री के किसी नियम व शतों में संशोधन का भी प् धकार है। (17) <b>इच्छुक बोलीदाता प्रध्</b> य प्रवा के बिना इस बिक्री के किसी नियम व शतों में संशोधन का भी प् धकार है। (17) <b>इच्छुक बोलीदाता कार्यालय घंटों (सुबह 10.00 से शाम 6.00 बजे दौरान श्री राज मिश्रा से बाइल नंबर 9971808986 पर सॉफ्क कर सकते हैं। स्वाइल नंबर 9971808986 पर सॉफ्क कर सकते हैं। स्वा हा नंबर 9971808966 पर गॉफर्ट के एतदद्वारा नीलामी की तिथि से पहले अब तक के व्याज वर्यो के साथ धारा 13(2) के तहत मांग सुचना में वॉर्णित अनुसार पारी का भुगतान करने के लिए सुचित त्या जाता है असफल होने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष देय, यदि कोई है, आपसे व्याज व या के साथ धारा 13(2) के तहत मांग सुचना में वॉर्णित अनुसार पारी का भुगतान करने के लिए सुचित त्या जाता है असफल होने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष देय, यदि कोई है, आपसे ब्याज व</b>	9.       RRA01841N आ?       माथुर / मेसर्स विनायक एसोसिएट्स       2         बंधककर्ती संपत्ति/यों पता : व्यावसायिक दुकान सं. 105 और 106 प्रथम तल पर (मापक क्षेत्र 4         माट, प्लाट सं. ए–5, न्यू आतिश मार्केट, गुपालपुरा, जयपुर–302020, राजस्थान श्री रवि माथुर नाम, सीमांकन : उत्तर : कॉरिडोर–9, दक्षिण : वर्णित नहीं , पूर्व : अन्य शोरूम, पश्चिम : वर्णित नहीं         10.       खाता सं. ए–5, न्यू आतिश मार्कट, गुपालपुरा, जयपुर–302020, राजस्थान श्री रवि माथुर नाम, सीमांकन : उत्तर : कॉरिडोर–9, दक्षिण : वर्णित नहीं , पूर्व : अन्य शोरूम, पश्चिम : वर्णित नहीं प्रसाद ग्रात ही प्रसाद गुर्जर / श्री मान सिंह पुत्र श्री जुरुदयाल गुर्जर / श्री मान सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर / श्री मान सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर / श्री मान सिंह	4 मार्च, 2021         21 जून, 2022         ए. 52,31,406/- विरुद्ध खाता सं. RRA01841N और           4,883.97 वर्ग गज), सनी ' और श्रीमती प्रीति माथुर के RRA01842N कुल = रु. 53,62,551/- दि. 31.05.2022 तक         ए. 30,39,121/- दि. 31.05.2022 तक	कोर्ट नोटिस (By CH, Bank)         13.07.202           स्पॉट नोटिस (By Bank)         18.07.202           स्पॉत ने निरिस (By Bank)         18.07.202           सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु (By Nodal Officer)         17.08.202           पीलामी तिथि (By Auctioneer)         29.08.202           पीलामी तिथि (By Auctioneer)         29.08.202           एमार्म संख्या 13         05.09.202           (आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुपूर्ण के नियम 38, 52( 2 ) के अन्तर्गत )
बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तिभूतित ऋणदाता) की वेबसाइट www.herohousingfinance.com पर https://uat. herohomefinance.in/hero_housing/other-notice में दिए लिंक का संदर्भ लें   हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए देनांक : 20 जुलाई, 2022 प्राधिकृत अधिकारी, थान : दिल्ली / एनसीआर सुश्री मनीषा मिश्रा, मो. 9892172608	बंधककर्ता संपत्ति/यों पता : आवासीय फ्लैट सं. जी– 1 (101), भूतल और तलघर तल, (मापकक्षेत्र 4 16 वैशाली नगर, जयपुर–302023, राजस्थान श्रीमती बर्फी देवी के नाम, सीमांकन : उत्तर : सड़क, दक्षिण : प्त उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / बंधकों को सूचित किया जाता है, जैसा कि कॉलम नंबर 3 में उ सह–उधारकर्ताओं / बंधक के विरुद्ध कॉलम नंबर 6 में दिखाए गए अनुसार कुल राशि का भुगतान क भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम नंबर 6 में दिखाए गए दिनांक के अनुसार संबंधित ऋण खातों के संबंध भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि जो भुगतान की दिनांक तक देय हो सकती है, क उफप वर्णित संपत्तियों पर प्रत्याभूत ब्याज के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया र दिनांक : 19.07.2022 स्थान : राजस्थान	प्रवर्ग गण, 'स्लाट'स'. 63, नद विहार, अमरपाला मांग, ताट सं. 70, पूर्व : प्लाट सं. 64, पश्चिम : प्लाट सं. 62 त्ल्लेख किया गया है, उन्हें संबंधित उधारकर्ताओं/ रने के लिए कहा जाता है, इस सूचना के 60 दिनों के 1 में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि 11.10.18 को सभी प्रतिवादीगण के विन जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी एडलवाइस एसोट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट एससी 414 के ट्रस्टी)	रंक ऑफ बड़ौदा बनाम के.पी. ट्रेडिंग कम्पनी <u>विक्रय को उद्पोपणा</u> कार्यालय वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण प्रथम तल सुधारमा-11.[कंसान भवन के सामने लाल कोठी सब्जी मण्डी के पास, टोंक रोड, जयपुर- 302015 (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य) री, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र मेंख्या 19/2018 जो कि मूल आवेदन संख्या 378/2017 में दिन (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य) री, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र मंख्या 19/2018 जो कि मूल आवेदन संख्या 378/2017 में दिन (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य) री, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार व्याज, वादन व्यय एवं खर्चा सहित वसूल गि द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णात बन्धक सम्पत्तिको प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विकय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। विक्र किससी स्थगन आदेश की अनुपरिश्वति में सन्दर्भित सम्पत्ति की नीलामी नीलामीकर्ता अधिवक्ता श्री अरविन्द चावला मोबाइंल न 2022 को 11 बजे से साथ उ बजे तक किया जायेगा।
स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉ पंजी0 कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद (यू.पी फोनः 01232-261288, वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com, ई- 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय पृथ 5. विवरण पृथकृत त. विवरण पृथकृत समाप्त तिमाही सामाप्त वर्ष समाप्त 30.06.2022 31.03.2022 अलेखापरिक्षित लेखापरिक्षित अलेखाप	जासि ICIO - CIN : L17100UP2016PLC084473, -मेलः spaceincubatrics@gmail.com यक्कूत एवं समेकित परिणाम (र लाख में) समोकित तेमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही	16 नई दिल्ली के समक्ष सा.च. द्वी. पी.(सीएए)-48 / एनडी / 2022 सम्बद्ध सी.ए. (सीएए)-08 / पीडी / 2022 रायम, 2013 के मामले में और रा 230-232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साध या एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में और मामेलन की योजना के मामले में र प्राइदेट लिमिटेड याविवाककतां नं 1 / इत्यांतरणकर्ता कंपनी	ावा गदेल् है। अली में हैं, के आधार पर किया जायेगा। सम्पत्ति का विकय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा। यदि सम्पत्ति के किसी। ) जाती है तो शेष सप्पत्ति के विषय में विकय तुरन्त गंक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विकय प्रारम्भ करने पूर्व उक्षन प्रमाण प लागत सहित विकय गित्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सनुष्टि के लिए यह प्रमाण करने पूर्व उक्ष हत अधोहरताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विकय रोक दिया जायेगा। श्रेष्वा अधिकृत प्रतिनिधी के जारेये बोली लगाने है (क्रो आप के दि के सित्ती भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इन विकय के सम् श्रेष्वा अधिकृत प्रतिनिधी के जारेये बोली लगाने है (क्रो आर्में इत किया जारा है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इन विकय के सम् त्रेष्व निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विकय में बॉली में अधिकारी या अन्य व्यक्ति जा इन विकय के सम् की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शतों तथा इसके अनर्गत निर्मित नियमों एवं निप्नलिखित अतिरिक्तशतों के अध्ययीन होगा:- संघोहरताक्षरकर्ता को आदा का जानकरों के अनुर्गत निर्मित नियमों एवं निप्नलिखित अतिरिक्तशतों के अध्ययीन होगा:- संघोहरताक्षरकर्ता को प्रारा के प्र वानकर्ता का जनुसार अकित है किन्तु अधोहरताक्षरकर्ता उद्योषणा में किसी जुटि, असन्य अथवा चुव य 8.55 लाख रूपये ( आठ लाख पच्चपन हजार रूपये), सम्पत्ति संख्या 2 का आरक्षित मुल्य 20.25 लाख रूपये ( बीस लाख पच्च राक्षित मुल्य 02.70 लाख रूपये ( दो लाख सत्तर इजार रूपये ) होगा जिससे केम मूल्य में सम्पत्ति विकय नहीं को जावेगी। बबूया जा सकेगा, सौके पर नोलानों होजो जोत क्र वा स्वराती विद्यतेगि। 1 10 प्रतिश तरारी रारा जा कराती होरा जो कि बसूली आधारती, क्रण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डुपट के ज
संचालन से कुल आय         15.86         112.70         17.3           गुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (अपवाद मद तथा कर से पूर्व)         -2.43         13.18         3.5           गुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पूर्व (अपवाद मद से पश्चात)         -2.43         13.18         3.5           गुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पूर्व (अपवाद मद से पश्चात)         -2.43         13.18         3.5           गुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (कर पश्चात तथा अपवाद मद से पश्चात)         -2.43         9.77         3.5           अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात लाम/हानी शामिल करक तथा कर पश्चात अन्य व्यापक आय)         -2.43         9.77         3.5           प्रवत्त इक्विटी शेयर पूंजी (र्र10/- का अंकित मूल्य)         3460.92         3460.92         3460.92         3460.92	2         -2.43         12.13         3.52           2         -2.43         12.13         3.52           2         -2.43         12.13         3.52           2         -2.43         12.13         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         3.52           2         -2.43         8.72         2.16           3         2.16         5.17 rin 3/47 ni 7.147	<ul> <li>इंडस्ट्रीज प्राइवेट तिमिटेड</li> <li>आधविग्वकतां नं. 2/ इस्तांतरिती कंपनी हेडलुक बंगेली हेडलूक बंगेली हेडलूक बंगेली हेडलुक बंगेली हेडलूक बंगेली होडलूक बंगेली हेडलूक बंगेली हेडलूक बंगेली होडलूक बंगेले होडले होडलूक बंगेले होडलूक बंगे होडलूक बंगेले होडलूक बंगेले होडलूक बंगेले होडले होडलूक बंगेले होडलूक बंगे होडलूक बंगेले होडलूक बंगेले</li></ul>	दाता को बोली से पूर्व प्रमाणित प्रति पंनकाई, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोल 'पास प्रसूतक तर होते । 'पास प्रसूतक तर होते । 'सवीकार करने का अधिकार अधोड़रताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पयतः इतना अपयांप हो कर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा । 'कर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा । 'कर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा 'स करवावी जावेगी । नीलामी की तिथि से 1.5 व दिवस तक अमा करनी होगी जिसमें नीलामी का दिन शामिल नहीं होगा । यदि 1.5 वा राश्वात प्रथम कार्योलव दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिकय कि आने पर सम्पत्ति विक प्रथम करवायी जावेगी । नीलामी की तिथि से 1.5 व दिवस तक अमा करनी होगी जिसमें नीलामी का दिन शामिल नहीं होगा । यदि 1.5 वा राश्वात अपयांत्र विदिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्ता अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिकय कि आ जे पर सम्पत्ति विक के त के जे जमायुता राशि का विदि शे 1.2 दिवस तक अमा करनी होगी जिसमें नीलामी का दिन शामिल नहीं होगा। । यदि 1.5 वा राश्तो कि के जमायुता राशि को विद शे प्रवित्ता हो आ राशि प्रता को त्यत्त ने विक्रय के खे साथाजित करने के प्रश्वात 'क के के क्र सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जल्हा हो जायेगे । 00/- रूर्ध पर 2 प्रतिशत एवं उसके प्रथला तु गे राशि पार 1 प्रतिशत की दर संपार्य आर्थे प्रक्ति का भुगतान करना होगा । हो निरीक्षण दिनांक 17.08.2022 को 1 । बजे से सॉय 3 बजे तक किया जा सकेगा । आवश्यक होने पर प्रमाण पत्र वारी के के सम्थति 'ग । 10 मितट में यदि कोई बढी हुई बोली नही आतो तो नीलामी की कार्यवाही समापा घोषित कर दी जायंगी । यदि कोई बढी हुई बोली
<ul> <li>प्रति अंश शाय ( ₹ 10/- प्रत्येक) (लगातार, प्रति अंश आय ( ₹ 10/- प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा खण्डित पृथक कार्य संचालन हेतु) (अ) मूलमूत –0.01 0.03 0.0 (ब) द्रव्य –0.01 0.03 0.0</li> <li>टेप्पणियाँ– 1. उपरोक्त अलेखापरिक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम जैसा कि अंकेक्षण कार्य समि</li> </ul>		तिमिटेड की समामेलन की योजना के (11) धरोहर राशि का भुगतान असफल अधिकरण, नई दिल्ली भीठ, नई दिल्ली में इसकी 1 प्रस्तुत की गई थी और कथित याचिका र आई थी और माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि दुल्ली के समक्ष कथित याचिका पर सुनवाई की की जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी	य 10 मिनिट बढा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 4 बजे तक बढाया जा सकेगा। 7 बोलीदाताओं को उसी दिन नीलामीकर्ता अधिवक्ता द्वारा नीलामी के तुरन्त वाद कर दिया जावेगा। <b>सम्पति: का विवरण</b> सहित बेची जाने वाली सम्पति का विवरण मा सम्पत्ति या उसके किसी ो जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है भाग पर राजस्व जिसका मृल्याकनं किया गया है। उत्तरदायी है मुल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है (2) (3) (4)

30	30 जून 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय पृथक्कृत एव समेकित परिणाम <sub>(रलाख में)</sub>									
क्र.	विवरण		पृथक्कृत		समेकित					
सं.		समाप्त तिमाही 30.06.2022 अलेखापरिक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2022 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2021 अलेखापरिक्षित	30.06.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2022 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2021 अलेखापरिक्षित			
1.	संचालन से कुल आय	15.86	112.70	17.35	15.86	112.70	17.35			
2.	शुद्ध लाम∕ (हानि) अवधि हेतु (अपवाद मद तथा कर से पूर्व)	-2.43	13.18	3.52	-2.43	12.13	3.52			
3.	शुद्ध लाभ⁄(हानि) अवधि हेतु तथा कर पूर्व (अपवाद मद से पश्चात)	-2.43	13.18	3.52	-2.43	12.13	3.52			
4.	शुद्ध लाभ⁄(हानि) अवधि हेतु (कर पश्चात तथा अपवाद मद से पश्चात)	-2.43	9.77	3.52	-2.43	8.72	3.52			
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात लाम⁄हानि शामिल करके तथा कर पश्चात अन्य व्यापक आय)	-2.43	9.77	3.52	-2.43	8.72	3.52			
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- का अंकित मूल्य)	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92			
7.	अन्य इक्विटी	-	3119.35	-	-	-41.18	-			
8.	प्रति अंश आय ( ₹ 10/- प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा खण्डित पृथक कार्य संचालन हेतु)									
	(अ) मूलभूत	-0.01	0.03	0.01	-0.01	0.03	0.01			
	(ब) द्रव्य	-0.01	0.03	0.01	-0.01	0.03	0.01			

/w.spaceincubatrics.com पर भी उपलब्ध है।	स्पे
नगर	
7.2022	

नई दिल्ली पीठ नई दिल्ली के समक्ष	
कम्पनी याचिका सं. सी.पी.(सीएए)–48⁄एनडी⁄2022	
नई दिल्ली पीठ नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी याथिका सं. सी.पी.(सीएए)–48/एनडी/2022 सम्बद्ध कम्पनी आवेदन सं. सी.ए. (सीएए)–08/पीबी/2022 कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में और म्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के सा पठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेतन) नियम, 2016 के मामले में और	
कम्पनी आवेदन सं. सी.ए. (ँसीएए)–08/पीबी/2022	
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में	
और	
ज्म्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के सा	
पठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में	
निस्तलिखित के समामेलन की योजना के मामले में	

	हस्ता, /—
रेनांक : 19.07.2022	दीपाली मित्तल एवं अमित गोयल
थान ः नई दिल्ली	याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
•	171, चित्रा विहार, दिल्ली—110092

(''सह–उधारकर्ताओं'')	बी–17 <b>बंधककर्ता का नाम :</b> श्री रजीत कुमार अग्रवाल	2022 को देय और उस पर ब्याज और लागतों	
स्थान : आगरा, उ.प्र. दिनांक : 18.07.2022			धेकृत अधिकारी) <b>लिमिटेड</b>

9

# **TENDERS & NOTICES**



## MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Corporate Identity Number: L67190MH2005PLC153397

Registered Office: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai-400025 Tel. No.: +91 22 7193 4200 | Fax No.: +91 22 5036 2365 E-mail: shareholders@motilaloswal.com | Website: www.motilaloswalgroup.com

Company Secretary and Compliance Officer: Kailash Purohit

### POST-BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

This post-Buyback public advertisement (the "Advertisement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Advertisement should be read in conjunction with the public announcement dated May 18, 2022 published on May 19, 2022 ("Public Announcement"), the letter of offer dated June 13, 2022 ("Letter of Offer") and Offer Opening Advertisement dated June 22, 2022 published on June 23, 2022 , issued in connection with the Buyback.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

#### 1. THE BUYBACK

- 1.1 Motilal Oswal Financial Services Limited had announced the offer to Buyback up to 14,54,545 (Fourteen Lakhs Fifty Four Thousand Five Hundred and Forty Five) Equity Shares, representing 0.98% of the total paid-up Equity Share capital of the Company, from all Eligible shareholders (Equity Shareholders as on the Record Date, being Friday, May 27, 2022) on a proportionate basis, through the 'tender offer' process, at a price of INR 1,100 (Indian Rupees One Thousand One Hundred only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding INR 160,00,0000 (Indian Rupees One Hundred and Sixty Crores only) excluding the Transaction Costs, representing 5.09% and 4.11% of the aggregate fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company as at March 31, 2022, on audited standalone and consolidated financial statements, respectively, which is within the statutory limit of 25% of the aggregate of paid-up capital and free reserves (including securities premium) of the Company.
- 1.2 The Buyback was undertaken by way of tender offer through the stock exchange mechanism as prescribed under the SEBI Buyback Regulations and the SEBI Circulars. For the purposes of the Buyback, NSE was the designated stock exchange.
- 1.3 The Buyback Opening Date was Friday, June 24, 2022 and the Buyback Closing Date was Thursday, July 07, 2022

#### 2. DETAILS OF THE BUYBACK

- 2.1 14,54,545 (Fourteen Lakhs Fifty Four Thousand Five Hundred and Forty Five) Equity Shares were bought back under the Buyback, at the price of INR 1,100 (Indian Rupees One Thousand One Hundred only) per Equity Share.
- 2.2 The total amount utilized in the Buyback is INR 159,99,99,500 (Indian Rupees One Hundred and Fifty Nine Crores Ninety-Nine Lakhs Ninety-Nine Thousand and Five Hundred only), excluding Transaction Costs.
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered a total of 40,574 valid bids for 2,77,12,401 Equity Shares in response to the Buyback, which is approximately 19.05 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Particulars	Number of Equity Shares available for Buyback (A)	Total no. of bids received in the category	Total Equity Shares bid for in the category	Total valid Bids received in the category	Total valid Equity Shares received in the category** (B)	No. of times (total valid Equity Shares received to the total no. of Equity Shares proposed to be bought back) (B/A)
Small Shareholder Category	2,18,182	38,694	6,06,962	38,694	6,01,733	2.76
General Category	12,36,363	1,880	2,71,12,581	1,880	2,71,10,668	21.93
Not in Master file*	-	672	5,489	-	-	-
Total	14,54,545	41,246	2,77,25,032	40,574	2,77,12,401	19.05

\*672 bids for 5,489 Equity Shares were not considered since they were not shareholders as on Record Date.

\*\*Excludes excess bid by 294 shareholders for 5,229 Equity Shares under Reserved Category and 19 shareholders for 1,913 Equity Shares under General Category, which were over and above their shareholding as on Record Date hence such equity shares have not been considered for acceptance.

- 2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection was dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company) on July 18, 2022. In cases where email IDs were not registered with the Company or depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on July 18, 2022.
- 2.5 The settlement of all valid bids was completed by NSE Clearing on Monday, July 18, 2022. NSE Clearing has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Shareholders. Broker for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- 2.6 Demat Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on July 18, 2022. The unaccepted Demat Shares have been unblocked in the account of respective Eligible Shareholders by NSE Clearing on July 18, 2022.
- 2.7 The extinguishment of 14,54,545 Equity Shares accepted under the Buyback in dematerialized form is currently under process and shall be completed by Monday, July 25, 2022.

#### 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company pre and post Buyback is set forth below

Particulars	Pre-Buyback*	Post-Buyback		
Authorised share capital	INR 112,00,00,000 (112,00,00,000 Equity Shares)	INR 112,00,00,000(112,00,00,000 Equity Shares)		
	NR 62,00,00,000 (62,00,00,000 Preference Shares)	INR 62,00,00,000(62,00,00,000 Preference Shares)		
Issued, subscribed and fully paid up share capital	INR 14,90,62,919 (14,90,62,919 Equity Shares)	INR 14,76,08,374 (14,76,08,374 Equity Shares) <sup>#</sup>		

\*As on Record Date i.e. May 27, 2022

#Subject to extinguishment of 14,54,545 Equity Shares accepted in the Buyback

3.2 Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back under the Buyback are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Share Capital of the Company#				
1.	Motilal Oswal Family Trust	3,68,424	25.33%	0.25%				
2.	Raamdeo Ramgopal Agrawal	3,43,446	23.61%	0.23%				
3.	Motilal Gopilal Oswal	69,640	4.79%	0.05%				
4.	Navin Agarwal	68,938	4.74%	0.05%				
5.	PPFAS Mutual Fund (multiple schemes under same PAN)	56,646	3.89%	0.04%				
6.	Suneeta Raamdeo Agrawal	55,728	3.83%	0.04%				
7.	Raamdeo Ramgopal Agrawal-HUF	42,310	2.91%	0.03%				
8.	Franklin Templeton Investment Funds	19,042	1.31%	0.01%				
9.	TIMF Holdings	17,176	1.18%	0.01%				
10.	Rajat Rajgarhia	14,698	1.01%	0.01%				

FORM NO. CAA. 2 [Pursuant to Section 230(3) of the Companies Act, 2013 and Rules 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016] BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

DIVISION BENCH – I, CHENNAI CA(CAA)/20(CHE)/2022 In the Matter of Section 230 to 232 of The Companies Act, 2013

And In the Matter of Scheme of Amalgamation Between SURYALAXMI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

SURYALAXMI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (Transferor Company) And AYODHYA FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED

(Transferee Company) And Their Respective Share Holders

Suryalaxmi Enterprises Private Limited

Having its registered office at 3/11, Seshachala Gramini Garden Street, Sathangadu, Chennai – 600 019, Tamil Nadu

.... Applicant Company/ Transferor Company Advertisement of Notice of Meeting of the Unsecured Creditors of Suryalaxmi Enterprises Private Limited

Notice is hereby given that by an Order dated 13th July, 2022, the National Company Law Tribunal, Division Bench-I, Chennai has directed a Meeting to be held of the Unsecured Creditors of Suryalaxmi Enterprises Private Limited ("the Company") for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation proposed to be made between Suryalaxmi Enterprises Private Limited and Ayodhya Flour Mills Private Limited and their respective Shareholders ("Scheme").

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the Unsecured Creditors of the Suryalaxmi Enterprises Private Limited, will be convened and held at 3/11, Seshachala Gramini Garden Street, Sathangadu, Chennai – 600 019, Tamil Nadu, on Monday, August 22, 2022 at 10 A.M., at which time and place, the Unsecured Creditors are requested to attend.

Copies of the said Scheme of Amalgamation, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the Company. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company at 3/11, Seshachala Gramini Garden Street, Sathangadu, Chennai – 600 019, Tamil Nadu, not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be had at the registered office of the Company. The Tribunal has appointed Mr. Chandramouli Prabhakar, Advocate, as the Chairperson of the said meeting. The above mentioned Scheme, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Dated at Chennai on this Chandramouli Prabhakar the 19th day of July, 2022 Chairman appointed for the Meeting

# 🔊 Chola

# **Cholamandalam Financial Holdings Limited**

CIN:L65100TN1949PLC002905

Regd. Office: 'Dare House', No. 234, N.S.C. Bose Road, Chennai – 600 001. Tel: 044-42177770-5; Fax: 044-42110404 E-mail: <u>investorservices@cfnl.murugappa.com;</u> Website: <u>www.cholafnl.com</u>

### NOTICE TO MEMBERS

鎩

NOTICE is hereby given that the 73<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of Cholamandalam Financial Holdings Limited, will be held at 3.30 p.m. on Wednesday, 10 August, 2022 through Video Conference (VC) to transact the business contained in the notice dated 11 May, 2022 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time. The Company has sent the notice of the AGM and the annual report for the financial year 2021-22 (FY 22) on Tuesday, 19 July, 2022 through electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) / Depository Participant.

The annual report and AGM notice can also be downloaded from the following websites: <u>www.cholafhl.com</u>, RTA: <u>https://evoting.kfintech.com/Public/Downloads.aspx</u> and stock exchanges: <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u>.

Notice is also hereby given that the register of members and share transfer books of the company will remain closed from Thursday, 4 August, 2022 to Wednesday, 10 August, 2022 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the members entitled to the dividend for the financial year 2021 -22.

The company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their vote on all businesses contained in the notice through the e-voting platform of KFin Technologies Limited (KFIN), besides providing a facility for voting by electronic means in the AGM. The remote e-voting shall begin at 9.00 a.m. (IST) on Saturday, 6 August, 2022 and end at 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, 9 August, 2022. The remote e-voting shall be disabled by KFIN thereafter.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on 3 August, 2022, being the cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / electronic voting in the AGM. KFIN will be sending an e-mail with the User ID and password to any person who has acquired shares after 19th July 2022 and holding shares as on the cut-off date of 3 August, 2022. However, if such a person is already registered with KFIN for e-voting, then he /she can use the existing User ID and password for casting the vote.

Those members who are present in the AGM through VC facility and had not cast their votes through remote e-voting, may vote through e-voting facility during the AGM session. Those members who had exercised their vote through remote e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again.

Members may refer to the AGM Notice for detailed instructions on remote e-voting, participation in the AGM through VC, submission of questions prior to AGM, registration as speaker at the AGM and e-voting in the AGM. The e-voting user manual is available at the downloads section of <u>https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx</u>. In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, members may contact Mr. Raj Kumar Kale, Assistant Vice President – Corporate Registry, KFIN Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 email: <u>rajkumar.kale@kfintech.com;</u> Tel:040-67162222 & Toll-

#### Coforge Limited (estwhile NIIT Technologies Limited) CIN: L72100DL 1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297

#### Email: investors@coforge.com, Website: https://www.coforge.com NOTICE- 30th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Coforge Limited (erstwhile NIIT Technologies Limited) ('the Company') for financial year 2021-22 will be held on Wednesday, August 24, 2022 at 09:00 AM through Video Conference facility ('VC')/or Other Audio Visual Means ('OVAM') in compliance with the General Circular Nos. 14/2020, 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 respectively and clarification circular 02/2021 dated January 13, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circular'), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made there under.

The Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 along with Notice convening the AGM will be sent in due course only through email to all those Members whose email address is registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/Depository Participants ('DP'), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. The aforesaid documents will also be made available at <u>www.coforge.com</u>, stock exchange websites at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> and on the NSDL website at <u>https://www.evoting.nsdl.com</u>.

The instruction for attending the meeting through VC/OVAM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective DP. Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

The members holding shares in physical form are requested to consider converting their physical shares into dematerialized and eliminate all risks associated with the physical shares.

#### Procedure for registration of email addresses and bank details:

Members holding shares in physical/demat form and who are yet to register/update their email IDs are requested to approach NSDL/CDSL ('Depository Participant') in case of dematerialized shares. In case shares are held in physical form, Members are requested to send their request letters to Alankit Assignments Limited, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 ('RTA') signed by all the shareholders along with self- attested copies of PAN Card and address proof to register their email ids. Similarly, the Members may also reach out to the above mentioned for updation of Bank account details with Request letter, ID Proof & a copy of cancelled cheque. In case of any query you may write to Investor Services at investors@coforge.com or rta@alankit.com.

For **Coforge Limited** (Erstwhile NIIT Technologies Limited) Sd/-**Barkha Sharma** 

 Dated : July 19, 2022
 Barkha Sharma

 Place : Noida
 Company Secretary

## MONTE CARLO FASHIONS LIMITED (CIN: L51494PB2008PLC032059)

Registered Office: B-XXIX-106, G.T. Road, Sherpur, Ludhiana-141003 Tel.: 91-161-5048610-20-30-40, Fax: 91-161-5048650 Website: www.montecarlocorporate.com

### E-mail: investor@montecarlocorporate.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of Company to Investor

Education and Protection Fund (IEPF)

NOTICE is hereby published pursuant to Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("IEPF Rules"). In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules, the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Adhering to the various requirements as set out in the IEPF Rules, the Company has already sent communication individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF Authority under the IEPF rules for claiming their unclaimed dividend latest by August 19, 2022 to avoid transfer of shares to the demat account of IEPF Authority.

In terms of Rule 6 of IEPF Rules, the Company has also uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to the demat account of the IEPF authority and unclaimed dividend on its website www.montecarlocorporate.com. Shareholders are requested to verify the details of unclaimed dividend and shares liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. The shareholders are advised to claim such dividend(s) by August 19, 2022.

It may be noted that no claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to IEPF Rules. The Shareholders can claim both the unclaimed dividend and the shares transferred to the demat account of IEPF authority by making an online application to IEPF authority, for which the details are available at www.iepf.gov.in.

In case the shareholder is unable to claim the unencashed dividend (s) by August 19, 2022, the company shall with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules, initiate necessary action for transfer of shares to the demat account of the IEPf Authority as per the procedure prescribed under IEPF Rules.

In case of any queries/ clarifications, the shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent: M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC,Near Savitri Market,Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel No.: 011-41410592, e-mail : iepf.shares@linkintime.co.in.

The said notice can also be accessed on the Company's website i.e. www.montecarlocorporate.com and the websites of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

#### #Subject to extinguishment of 14,54,545 Equity Shares accepted in the Buyback

3.3 The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as of the Record Date being May 27, 2022) and post the completion of the Buy-back is as follows:

	Pre-E	Buyback	Post Buyback#		
Particulars	No. of Equity Shares	% to the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% to the post-Buyback Equity Share Capital	
Promoters and persons acting in concert (collectively "the Promoters")	10,36,05,055	69.50%	10,27,23,398	69.59%	
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs)	1,57,39,993	10.56%			
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/Institutions and Insurance Companies	53,22,033	3.57%	4,48,84,976	30.41%	
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	2,43,95,838	16.37%			
Total	14,90,62,919	100.00%	14,76,08,374	100.00%	

#Subject to extinguishment of 14,54,545 Equity Shares accepted in the Buyback

#### 4. MANAGER TO THE BUYBACK



Ernst & Young Merchant Banking Services LLP The Ruby, 14th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400 028, India Tel No.: +91-22-6192 0000 Fax No.: +91-22-6192 1000 Email: mofsl.buyback2022@in.ey.com; Website: www.ey.com/in/mb Investor grievance e-mail: investorgrievances@in.ey.com SEBI Registration No.: INM000010700; Validity Period: Permanent Contact person: Chintan Hefa LLP Identity No: AAO-2287

#### 5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. This Advertisement is issued under the authority of the Board of Directors by the Finance Committee through the resolution passed by the Finance Committee meeting held on July 19, 2022.

#### For and on behalf of the Board of Directors of Motilal Oswal Financial Services Limited

Sd/-	Sd/-
Raamdeo Agrawal	Motilal Oswal
Non-Executive Chairman	Managing Director and
DIN: 00024533	Chief Executive Officer
	DIN: 00024503

Date: July 19, 2022 Place: Mumbai free No.18003094001 or through email at <u>einward.ris@kfintech.com</u>.

For Cholamandalam Financial Holdings Limited

Chennai

July 19, 2022



# PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION CIVIL ENGINEERING 'D' HO DEPARTMENT TENDER NOTICE No: - CIVIL/DHO/17/1/2022-2023

Place: Ludhiana Date: 19.07.2022

Offers by way of e-tendering (Percentage) are invited by the Joint City Engineer, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation from contractors in e-tendering system for following works.

Sd/-

E Krithika

Company Secretary

1) The contractor shall quote his Percentage offer on the Cost of work excluding Royalty and material testing 2) The offer for work shall be exclusive of GST. The GST at the applicable rate shall be paid separately by PCMC for work

3) For Following works Regarding the Royalty, the policy that the corporation determines will be binding on you.

Sr. No	Name of Work	Estimated cost put to the Tender (Rs) (4+6)	Cost of Work excluding Royalty and Material testing charges (Rs)	Royalty (Rs)	Testing Charges (Rs)	Earnest money (Rs)	Security Deposit (Rs)	Time limit in calendar Months	Cost of Tender Documen t With G.S.T. (non refundabl e) (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Civil	DHO					
1	Construction of Fire Station at Punawale in Prabhag No.25 in Exchange of I to R Space	12,44,54,963	12,41,53,903	1,52,074	3,01,060	6,22,275	62,22,748	30	37,430
		Tir	ne table for the t	enders sha	ll be as fol	llows:			·
	Online sale of tenders		5-	Date 20/07/2022 to Date 17/08/2022					
	Last date of submission of	:-	Date 17/08/2022up to 3.00 pm						
	Pre Bid Meeting Date & Time :-			Date 05/08/2022 at 3.00 pm (In the Office Joint City Engineer (D HO), First floor PCMC					Engineer
	Date of opening of tende	:-	Date 19	/08/2022 a	t 03.00 Pm	(if possible)	)		
	The	Municipal Com	nissioner PCMC	recorves	the right t	o accent (	or reject any	tender n	artially or

The Municipal Commissioner PCMC reserves the right to accept or reject any tender partially or completely without any reason thereof. The details of above works, such as Security Deposit, Earnest Money Deposit, Terms & Conditions of the Tender and Schedule of works, are available on web site www.pcmcindia.gov.in, http://mahatenders.gov.in. In case of any technical problem related to the tender document, the same can be referred to the NIC email support-eproc@nic.in or on telephone numbers 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005,0120-627787

ADVT No. 134 No: ENGG/TEN/DHO/217/2022 Date :- 19/07/2022 (Bhalkar A.M.) Joint City Engineer Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Pimpri – 411 018.

Kailash Purohit Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: A28740

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$